



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 35-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 19, 2025 (MAGHA 30, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 फरवरी, 2025

**संख्या 10/81/2024-2जे०जे०(1).**— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 20 की उप धारा (11) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निदेशक अभियोजन, उप निदेशक अभियोजन तथा सहायक निदेशक अभियोजन की निम्नलिखित अन्य शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:—

1. निदेशक अभियोजन की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) में यथा उपबंधित निदेशक अभियोजन की शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त निदेशक अभियोजन की निम्नलिखित अन्य शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात्:—
  - (क) वह, राज्य में दाण्डिक वाद का प्रभारी होगा और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्यु से दण्डनीय अपराधों में राज्य के निमित्त किन्हीं भी दाण्डित मामलो या मामलो के वर्गों में अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाहियों के संचालन के लिए किसी भी दाण्डिक न्यायालय में पेश हो सकता है।
  - (ख) वह, राज्य में दाण्डिक मामलो के समक्ष उत्तरदायी अभियोजन सुनिश्चित करने हेतु अभियोजन उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन तथा अन्य लोक अभियोजको के कृत्यों की निगरानी तथा पर्यवेक्षण करेगा।
  - (ग) वह, उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन तथा राज्य के दाण्डिक न्यायालयों के समक्ष पेश हो रहे अन्य लोक अभियोजको के कार्य का पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन करेगा।
  - (घ) वह, दाण्डिक मामलों में अपील तथा पुनरीक्षणों इत्यादि को दायर करने हेतु मन्त्रणा देगा और वह आवश्यक निदेश जारी कर सकता है या ऐसे कदम उठा सकता है, जो वह अपीले या दाण्डिक पुनरीक्षण इत्यादि समय पर दायर करना सुनिश्चित करने हेतु उचित समझे।
  - (ङ) उसके पास दाण्डिक न्यायालयों में अभियोजन कार्य के कुशल संचालन के प्रयोजन के लिए, तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए राज्यों में लोक अभियोजक की उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई अस्थायी या तदर्थ व्यवस्था करने की शक्ति होगी और तीन मास से और आगे समय के विस्तार की दशा में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
  - (च) वह, दाण्डिक मामलो में किसी लोक अभियोजक द्वारा, यदि ऐसा वांछनीय हो, को कानूनी राय दे सकता है।

- (छ) वह, राज्य में दाण्डिक मामलों में अभियोजन कृत्यों के प्रभावकारी निष्पादन के लिए और कार्यवाहियों की प्रगति हेतु सभी आवश्यक कदम, जो वह उचित समझे, उठाएगा।
- (ज) वह, जिला निदेशालय या लोक अभियोजकों से अभियोजन कार्य के सम्बन्ध में कोई सूचना या रिपोर्ट मांगेगा। राज्य में अभियोजन कार्य के दक्ष निर्वहन हेतु मासिक रिपोर्ट और आवश्यक सिफारिशें राज्य सरकार को भेजेगा।
- (झ) वह, राज्य में अपराधों के अभियोजन में विधिक और प्रक्रिया सम्बन्धि अपेक्षाओं की अनुपालना सुनिश्चित करेगा और अन्वेषण और अभियोजन में कमियों की पहचान करेगा तथा उनको इंगित करेगा।
- (ञ) वह, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नीतियों और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।
- (ट) वह, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगा और राज्य में अभियोजन कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय करेगा।
- (ठ) वह, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से दाण्डिक मामलों में तथा चालानों/पुलिस रिपोर्टों की जांच तथा संवीक्षा के सम्बन्ध में समय-2 पर निदेश, हिदायतें, दिशानिर्देश, मानक संचालन प्रक्रिया इत्यादि जारी करेगा।
- (ड) वह, इस अधिसूचना के जारी होने के 03 मास के भीतर अभियोजन मैनुअल तैयार करना सुनिश्चित करेगा और उक्त मैनुअल को राज्य सरकार से अधिसूचित करवाएगा।
- (ढ) वह, लोक अभियोजकों के कार्यभार का मूल्यांकन करेगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (ण) वह, ई-प्रोसेक्यूशन, इंटरआपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, साफ्टवेयर इत्यादि जैसे डिजिटल सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने किसी अधीनस्थ या किसी लोक अभियोजक से कार्य रिपोर्ट मांग सकता है।
- (त) वह, अभियोजन विभाग के विधिक अधिकारियों के साथ विधि के छात्रों या विधि स्नातकों की इंटर्नशिप की एक स्कीम (योजना) तैयार कर सकता है।
- (थ) वह, आपराधिक मामलों के प्रभावी अभियोजन के लिए पुलिस, आबकारी विभाग, वन विभाग, माप एवं तोल विभाग, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला इत्यादि सहित विभागों के साथ सहयोग और समन्वय प्रदान करेगा।
2. उप-निदेशक अभियोजन की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य:- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम 46) में यथा उपबधित उप निदेशक अभियोजन की शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त उप निदेशक अभियोजन की निम्नलिखित शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-
- (क) वह जिला अभियोजन निदेशालय का प्रमुख होगा और वह निदेशक अभियोजन का अधीनस्थ होगा।
- (ख) वह चालान/पुलिस रिपोर्टों का परीक्षण तथा जाँच करेगा।
- (ग) वह जिले में सभी दाण्डिक कार्रवाईयों के लिए जिम्मेदार होगा और निदेशक अभियोजन के पूर्व अनुमोदन से और राज्य की ओर से किसी भी दाण्डिक मामले में या मामलों की श्रेणियों में, अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाईयों चलाने के लिए, जिला में किसी भी दाण्डिक न्यायालय में पेश हो सकता है।
- (घ) वह सीधे या लोक अभियोजकों के माध्यम से जिला अभियोजन निदेशालय में दाण्डिक मामलों के कुशल अभियोजन तथा त्वरित निपटान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेगा।
- (ङ) वह निगरानी करेगा कि जिला निदेशालय में लोक अभियोजकों/विशेष लोक अभियोजकों/सहायक लोक अभियोजकों द्वारा दाण्डिक न्यायालयों के समक्ष राज्य का उचित रूप से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।
- (च) वह जिला न्यायवादी के माध्यम से लोक अभियोजकों/विशेष लोक अभियोजकों/सहायक लोक अभियोजकों के कार्य का पुनर्विलोकन करेगा और अपनी टिप्पणियों के साथ मासिक रिपोर्ट निदेशक अभियोजन हरियाणा को भेजेगा।
- (छ) वह यह सुनिश्चित करेगा कि दाण्डिक अपील या पुनरीक्षण याचिका, जैसी भी स्थिति हो, दाण्डिक न्यायालय के समक्ष विहित समयावधि के भीतर प्रस्तुत की गई है और ऐसी अपील या पुनरीक्षण याचिका में उचित प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित करेगा।
- (ज) वह जिला न्यायवादी के माध्यम से लोक अभियोजकों से टिप्पणियां या मंत्रणा प्राप्त करेगा और अपनी टिप्पणियां/मंत्रणा अभिलिखित करने के पश्चात् आगामी आवश्यक कार्यवाही के लिए मामलों को संसाधित करेगा।
- (झ) वह ऐसे अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेगा, जो राज्य सरकार या निदेशक अभियोजन, हरियाणा द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे सौंपे जाएं।

3. सहायक निदेशक अभियोजन की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य:— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम 46) में यथा उपबंधित सहायक निदेशक अभियोजन की शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त सहायक निदेशक अभियोजन की निम्नलिखित शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य होंगे:—
- (क) वह उप निदेशक अभियोजन के कृत्यों के पालन में उसकी सहायता करेगा।
- (ख) वह निदेशक अभियोजन के पूर्व अनुमोदन से राज्य की ओर से किसी भी दाण्डिक मामले या मामलों की श्रेणी में अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाहियां करने के लिए जिला में किसी भी दाण्डिक न्यायालय में पेश हो सकता है।
- (ग) वह उन दाण्डिक मामलों में जिसमें अपराध सात वर्ष से कम के लिए दंडनीय है, उत्तरदायी अभियोजन तथा त्वरित निपटान सुनिश्चित करेगा।
- (घ) वह चालानों/पुलिस रिपोर्टों की संवीक्षा करने में उप-निदेशक अभियोजन की सहायता करेगा और विधिक मामलों, जो उप-निदेशक अभियोजन द्वारा उसे सौंपे जाएं, में मंत्रणा अथवा टिप्पणियां प्रदान करेगा।
- (ङ) वह ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य सरकार या निदेशक अभियोजन या उप-निदेशक अभियोजन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे सौंपे जाएं।

डा० सुमिता मिश्रा,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
न्याय प्रशासन विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT**  
**Notification**

The 19th February, 2025

**No. 10/81/2024-2JJ(1).**— In exercise of the powers conferred under sub-section (11) of section 20 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), the Governor of Haryana hereby notifies the following other powers, functions and duties of the Director of Prosecution, Deputy Director Prosecution and Assistant Director Prosecution, namely:—

1. **POWERS, FUNCTIONS AND DUTIES OF THE DIRECTOR OF PROSECUTION,**—In addition to the powers and functions of the Director of Prosecution as provided in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), the Director of Prosecution shall have the following other powers, functions and duties, namely:—
- (a) He shall be the In-charge of criminal litigation of the State and may appear in any criminal Court for conducting prosecution, appeal or other proceeding in any of the criminal case or class of cases, on behalf of the State in offences punishable for ten years or more, or with life imprisonment or with death, with the prior approval of the State Government.
- (b) He shall control and supervise the functions of the Deputy Directors Prosecution, Assistant Directors Prosecution and other Public Prosecutors to ensure responsible prosecution before the criminal Courts.
- (c) He shall periodically review and evaluate the work of the Deputy Directors Prosecution, Assistant Directors Prosecution and other Public Prosecutor appearing before the Criminal Courts of the State.
- (d) He shall give opinion for filing of appeals or revisions etc. in criminal cases and may issue such necessary directions or take such steps that he considers appropriate to ensure that the appeals or criminal revisions etc. are filed well in time.
- (e) He shall for the purpose of smooth functioning of prosecution work in the Criminal Courts have the power to make any stop-gap or adhoc arrangement regarding appearance of Public Prosecutor in the State for a period not exceeding *three months* and in case of further extension of time beyond three months the approval of the State Government shall be obtained.

- (f) He may tender legal advice in criminal matters, if so desirable by any Public Prosecutor.
- (g) He shall take all necessary steps, as he may deem fit, for efficacious execution of prosecution functions and to expedite the proceedings in criminal cases of the State.
- (h) He shall call for any information or report regarding the prosecution work from District Directorate or Public Prosecutor and shall send monthly report and necessary recommendations to the State Government for smooth discharge of prosecution work in the State.
- (i) He shall ensure compliance with legal and procedural requirements in the prosecution of crimes in the State; identify and address the gaps in investigation and prosecution.
- (j) He shall ensure implementation of all other policies or guidelines issued by the State Government.
- (k) He shall arrange training programs and take necessary measures for enhancing the quality of prosecution work in the state.
- (l) He shall issue directions, instructions, guidelines, standard operating procedure etc. in criminal matter and regarding examination and scrutiny of challans/police reports from time to time with the approval of State Government.
- (m) He shall ensure to get prosecution manual prepared within three months of issue of this notification and get the said manual notified by the State Government.
- (n) He shall evaluate the workload of the Public Prosecutors and submit report in this regard to the State Government.
- (o) He may call work reports from any of his subordinate or any of a Public Prosecutors through digital software such as e-prosecution, Interoperable Criminal Justice System software etc.
- (p) He may prepare a scheme of internship of law students or law graduates with the Legal officers of the prosecution department.
- (q) He shall extend cooperation and coordinate with all departments of the State including Police, Excise Department, Forest Department, Weights and Measures Department, Forensic Science Laboratory etc. for effective prosecution of criminal cases.

2. **POWERS, FUNCTIONS AND DUTIES OF THE DEPUTY DIRECTOR PROSECUTION:** -In addition to the powers and functions of the Deputy Director Prosecution as provided in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), the following shall be the powers, functions and duties of the Deputy Director Prosecution, namely:-

- (a) He shall be the Head of District Directorate of Prosecution and shall be subordinate to the Director of Prosecution.
- (b) He shall examine and scrutinize challans/police reports.
- (c) He shall be responsible for all Criminal proceedings, in the District and may appear in any criminal Court in the District for conducting prosecution, appeal or other proceedings in any of the criminal case or class of cases, on behalf of the State with the prior approval of Director of Prosecution.
- (d) He shall ensure to take all necessary steps for effective prosecution and expeditious disposal of criminal cases in the District Directorate of Prosecution directly or through Public Prosecutors.
- (e) He shall monitor that the State is being represented properly before the criminal courts by the Public Prosecutors/ Special Public Prosecutors/Assistant Public Prosecutors within the District Directorate.
- (f) He shall review the work of the Public Prosecutors/Special Public Prosecutors/ Assistant Public Prosecutors through District Attorney and shall send a monthly report alongwith his comments to the Director of Prosecution, Haryana.
- (g) He shall ensure that the criminal appeal or revision petition as the case may be is presented before the criminal Court within the prescribed time period and ensure proper representation in such appeal or revision.
- (h) He shall receive comments or opinions from the Public Prosecutors through District Attorney and after recording his comments/opinion, shall process the cases for further necessary action.
- (i) He shall perform all such other duties which may be assigned to him by general or special order by State Government or the Director of Prosecution.

3. POWERS, FUNCTIONS AND DUTIES OF THE ASSISTANT DIRECTOR PROSECUTION: -In addition to the powers and functions of the Assistant Director Prosecution as provided in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), the following shall be the powers, functions and duties of the Assistant Director Prosecution, namely:-
- (a) He shall assist the Deputy Director Prosecution in performing his functions.
  - (b) He may appear in any Criminal Court in the District for conducting prosecution, appeal or other proceeding in any of the criminal case or class of cases, on behalf of the State with the prior approval of Director Prosecution.
  - (c) He shall ensure responsible prosecution and expeditious disposal in criminal cases in which offences are punishable for less than seven years.
  - (d) He shall assist the Deputy Director Prosecution in the scrutiny of challans/police reports and may tender opinion or comments in legal matters as may be assigned to him by the Deputy Director of Prosecution.
  - (e) He shall discharge all such duties, as may be assigned to him by general or special order by the State Government or the Director of Prosecution or the Deputy Director Prosecution.

DR. SUMITA MISRA,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Administration of Justice Department